



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3



SEC-1/187(2)/2023/1571

Dated: December 11, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai – 400 051.</u>	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001.</u>
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: General Business Updates – “REC enters into 200 million Euro Loan Agreement with German Bank KfW”.

Sir/Madam,

In compliance with the provisions of Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in continuation of our intimation letter dated December 8, 2023, further information in the matter is as below:

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of parties with whom the agreement is entered	KfW Development Bank
2	Purpose of entering into the agreement	Under Indo-German Financial Cooperation, both Governments agreed in 2019 to earmark the "Energy Reform Programme India II" for German funding of up to EUR 200Mn earmarked for support of reform-oriented investments in the Indian electricity distribution sector. REC would use Line of Credit to re-finance investments in the distribution infrastructure of DISCOMs in the framework of and in alignment with the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS).
3	Size of agreement	EUR 200 Mn
4	Shareholding, if any, in the entity with whom the agreement is executed	Nil
5	Significant terms of the agreement (in brief) special rights like right to appoint directors, first right to share subscription in case of issuance of shares, right to restrict any change in capital structure etc.;	REC to use Line of Credit to re-finance RDSS long-term investments loans of upto 40% of Discoms' CAPEX under Part-A, distribution infrastructure works, of RDSS.

Regional Offices : Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panchkula, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram & Vijaywada
State Offices : Vadodara, Varanasi
Training Centre : REC Institute of Power Management & Training (RECIPMT), Hyderabad

6	Whether, the said parties are related to promoter/promoter group/ group companies in any manner. If yes, nature of relationship;	No
7	Whether the transaction would fall within related party transactions? If yes, whether the same is done at "arm's length	No
8	In case of issuance of shares to the parties, details of issue price, class of shares issued	NA
9	In case of loan agreements, details of lender/borrower, nature of the loan, total amount of loan granted/taken, total amount outstanding, date of execution of the loan agreement/sanction letter, details of the security provided to the lenders / by the borrowers for such loan or in case outstanding loans lent to a party or borrowed from a party become material on a cumulative basis;	Lender: KfW Development Bank Borrower: REC Limited Loan Amount: EUR 200 Mn Loan Outstanding: Nil Date of execution of agreement: 08.12.2023 Details of Security: No Security, as this is an unsecured loan.
10	Any other disclosures related to such agreements, viz., details of nominee on the board of directors of the listed entity, potential conflict of interest arising out of such agreements, etc.	NA

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,



(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव